

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024-फाल्गुन 4, शक 1945

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### अन्य सूचनाएं

#### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण सूचित किया जाता है की कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम कल्याण सिंह पिता नारायण सिंह ( kalyan Singh S/o Narayan Singh) है एवं कुछ में कल्याण मौर्य पिता नारायण सिंह दर्ज है उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं. मेरे पुराने पैन कार्ड पर भी त्रुटिवश कल्याण सिंह दर्ज था जिसे मैंने कल्याण मौर्य करवा लिया है अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कल्याण मौर्य पिता नारायण सिंह ( kalyan Mourya S/o Narayan Singh) से जाना, पहचाना व लिखा, पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(कल्याण सिंह)

नया नाम  
(कल्याण मौर्य)

निवासी : 24, लक्ष्मणपुरा, किला मैदान रोड,  
इंदौर (म.प्र.).

(G-381)

### Change of Name

It is to be informed to the general public that I, Hrituu Nair W/o Sharad Chandra Nair Presently Resident of I Alok Nagar, Kanadia Road, Indore earlier Known by the name of Ritu Nair W/o Sharad Chandra Nair have Changed my name to Hrituu Nair W/o Sharad Chandra Nair for all purposes. Hence from now onwards I shall be known as Hrituu Nair W/o Sharad Chandra Nair Only.

Old Name

(Ritu Nair)

New Name

(Hrituu Nair)

(G-382)

#### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, भागीदारी फर्म "मेसर्स भोपाल ग्लास एण्ड टेन्ट स्टोर्स" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00051/06 सन् 2006-2007 दिनांक 06/07/2006 पंजीकृत फर्म है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 1 अप्रैल 2014 को इस भागीदारी फर्म में भागीदार (1) मोहम्मद इब्राहीम खान पुत्र स्व. श्री मोहम्मद जावेद खान (2) मोहम्मद ईस्माइल खान पुत्र श्री मोहम्मद अय्यूब खान (3) श्रीमती सेहबा जावेद पत्नि श्री मोहम्मद जावेद तथा (4) श्रीमती फरहाना अय्यूब पत्नि श्री मोहम्मद अय्यूब खान को आपसी सहमति से शामिल (सम्मिलित) किया गया है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 21 जुलाई 2023 के अनुसार मोहम्मद जावेद पुत्र स्व. श्री अब्दुल मजीद जी का आकस्मिक निधन दिनांक 15/07/2023 को होने के कारण सभी भागीदारों की आपसी सहमति से दिनांक 16/07/2023 को स्वर्गीय मोहम्मद जावेद पुत्र स्व. श्री अब्दुल मजीद जी इस भागीदारी फर्म से स्वतः पृथक् (बाहर) हो गये हैं। आमजन सर्वजन को सूचित हो।

"मेसर्स भोपाल ग्लास एण्ड टेन्ट स्टोर्स"

(मोहम्मद अय्यूब)

भागीदार

9, इतवारा रोड, भोपाल, तहसील- हुजूर,

जिला-भोपाल.

(G-383)

#### जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, "MAHANA VENTURES" पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0010/19 सन् 2019-2020 दिनांक 12 अप्रैल 2019 पंजीकृत फर्म है। जिसका मुख्यतः पता-ए-42, मन्नीपुरम कालोनी, चार इमली, भोपाल 462016 है। यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 1 अप्रैल 2023 के अनुसार श्रीमती रिचा राजोरिया पत्नि श्री विकास राजोरिया निवासी-21, ग्लोबस फेब सिटी, चूना भट्टी, तह. हुजूर, भोपाल-462016 को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में सम्मिलित किया गया है।

"MAHANA VENTURES"

(श्रीकृष्ण राजोरिया)

(भागीदार)

ए-42, मन्नीपुरम कालोनी, भोपाल.

(G-384)

## आम सूचना

## इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अंतर्गत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स TRADE HOUSE पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है। यह कि, फर्म के साझेदारों द्वारा आपसी सहमति से दिनांक 08/09/2023 को फर्म में नए साझेदार के रूप में श्रीमती रेनू भार्गव पति श्री राजेश भार्गव निवासी 7-8, पूर्णिता कॉलोनी, बिचौली मर्दाना, इंदौर (मध्यप्रदेश) शामिल हुई है एवं दिनांक 07.11.2023 से श्री नेमीचंद मारु पिता श्री माणकचंद मारु निवासी 153, बैकुंठ धाम कॉलोनी, तिलक नगर, इंदौर (मध्यप्रदेश) ने फर्म से साझेदार के रूप में इस्तीफा दिया है एवं फर्म के साझेदार नहीं रहे हैं।

मेसर्स TRADE HOUSE  
(RAJESH BHARGAV)  
पार्टनर

(G-385)

## आम सूचना

## इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स पुरुषोत्तमदास गोपालदास एंड कंपनी पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है। यह कि, फर्म के साझेदार श्रीमती दुर्गाबाई पति श्री गोपाल दास निवासी 41, आर एन टी मार्ग, इंदौर, मध्यप्रदेश ने दिनांक 31.03.2009 को स्वेच्छा से फर्म से साझेदार के रूप में त्याग पत्र दिया है एवं दिनांक 01.04.2014 को साझेदारों की आपसी सहमति से जितेंद्र कुमार पुरुषोत्तमदास जिंदल एचयुफ तर्फे कर्ता श्री जितेंद्र जिंदल पिता श्री पुरुषोत्तम जिंदल निवासी 97, नई भूमि अग्रवाल नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश एवं श्रीमती प्रीती जिंदल पति श्री जीतेन्द्र जिंदल निवासी 97, नई भूमि अग्रवाल नगर, इंदौर, मध्यप्रदेश साझेदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया है साथ ही इसी दिनांक से श्रीमती सावित्री बाई जिंदल पति श्री मदनलाल जिंदल निवासी 42, आर एन टी मार्ग, इंदौर, मध्यप्रदेश ने स्वेच्छा से फर्म से साझेदार के रूप में त्याग-पत्र दिया है।

वास्ते मेसर्स पुरुषोत्तमदास गोपालदास एंड कंपनी  
(पुरुषोत्तम जिंदल)

पार्टनर

(G-386)

## आम सूचना

मेसर्स चांद इंटरप्राइजेज सागर तहसील सागर जिला सागर (म.प्र.) पिन 470002 जिसका गठन दिनांक 21.09.2007 को किया गया था. जिसमें निम्नांकित पार्टनर थे. 1. संजीव कुमार केशरवानी 2. शैलेश केशरवानी, 3. अखिलेश कुमार केशरवानी, 4. निशात गुल, 5. सेवकचंद जैन 6. अजय कुमार गुप्ता, 7. सोनू गुप्ता, उपरोक्त इस फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर फर्म को पुनः पुनर्गठित करने की कार्यवाही की जा रही है. जिसमें से भागीदारी निशात गुल, सेवकचंद जैन, अजय कुमार गुप्ता, सोनू गुप्ता स्वेच्छा से फर्म से दिनांक 20.09.2021 को रिटायर हो रहे हैं. जिसके अनुसार दिनांक 20.09.2021 से निम्नांकित भागीदारी रहेंगे.

1. संजीव कुमार केशरवानी
2. शैलेश कुमार केशरवानी
3. अखिलेश कुमार केशरवानी

उपरोक्त विवरण जन साधारण के संज्ञान में लाने बाबत इशतहार जारी किया जा रहा सामान्य जन सूचित हों.

चांद इंटरप्राइजेज  
(संजीव कुमार केशरवानी)  
पार्टनर

(G-387)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती संजना कृष्णा लोखंडे (Sanjana Krishna Lokhande) पत्नी श्री कृष्णा लोखंडे निवासी - म.नं. 80, प्रेस कॉम्प्लेक्स, एम.पी. नगर, जोन-1, वार्ड नं. 43 तह. हुजूर जिला भोपाल म.प्र. पूर्व में मेरा विवाह दिपक कामले के साथ हुआ था इस कारण मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती संजना दिपक कांबले (Sanjana Deepak Kamble) पत्नी श्री दिपक रामभाऊ कांबले अंकित है. मेरे पूर्व पति के स्वर्गवास उपरांत मेरे द्वारा दूसरा विवाह कर लिया गया है इस कारण अब मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती संजना कृष्णा लोखंडे (Sanjana Krishna Lokhande) पत्नी श्री कृष्णा लोखंडे हो गया है. अब मैं, इसी नाम से जानी व पहचानी व पुकारी जाती हूँ.

प्रकाशन उपरांत मुझे अपने संशोधित नाम श्रीमती संजना कृष्णा लोखंडे (Sanjana Krishna Lokhande) पत्नी श्री कृष्णा लोखंडे के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं, इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी.

पुराना नाम  
संजना दिपक कांबले  
(Sanjana Deepak Kambale)  
पत्नी श्री दिपक रामभाऊ कांबले  
(G-388)

नया नाम  
संजना कृष्णा लोखंडे  
(Sanjana Krishna Lokhande)  
पत्नी श्री कृष्णा लोखंडे

### नाम परिवर्तन

मैं, राजकुमार सावलानी आत्मज स्व.श्री ताराचंद सावलानी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे शासकीय, अर्द्धशासकीय शैक्षणिक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, समग्र परिवार कार्ड, बैंक पास बुक इत्यादि में मेरा नाम राजकुमार सावलानी अंकित है एवं मेरे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एवं पहचान पत्र में मेरा नाम मनोज कुमार सावलानी दर्ज है, ये दोनों ही नाम मेरे स्वयं के यानि एक ही व्यक्ति के नाम है, अतः मेरे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की पॉलिसी एवं पहचान पत्र में मेरा नाम मनोज कुमार सावलानी के स्थान पर राजकुमार सावलानी नाम पढ़ा जाये.

पुराना नाम  
(मनोज कुमार सावलानी)

नया नाम  
(राजकुमार सावलानी)  
निवासी-मकान नं. एच-3/39, चंचल रोड,  
संत हिरदाराम नगर, (बैरागढ़), तहसील हुजूर,  
जिला-भोपाल (म.प्र.).

(G-389)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश गजराज अहिरवार (GAJRAJ AHIRWAR) दर्ज हो गया है जोकि गलत है. अतः मेरा सही नाम गजराज सिंह (GAJRAJ SINGH) है जोकि मेरे सभी दस्तावेजों में दर्ज है. अतः अब मेरा सही नाम गजराज सिंह (GAJRAJ SINGH) मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में लिखा, पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(गजराज अहिरवार)  
(GAJRAJ AHIRWAR)  
(G-390)

नया नाम  
(गजराज सिंह)  
(GAJRAJ SINGH)

## नाम परिवर्तन

मैं, अनिल कुमार प्रजापति आत्मज श्री राम सेवक प्रजापति, निवासी मकान न. जी-25, ए शालीमार सेवन गार्डन, होशंगाबाद रोड भोपाल (म.प्र.). मेरे शैक्षणिक सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनिल कुमार प्रजापति दर्ज है. परन्तु मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम अनिल प्रजापति दर्ज है जो कि गलत है, मेरा सही नाम अनिल कुमार प्रजापति है. अतः भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(अनिल प्रजापति)  
(Anil Prajapati)  
(G-391)

नया नाम  
(अनिल कुमार प्रजापति)  
(Anil Kumar Prajapati)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह पूर्व का नाम मोली कुरियन था. मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा यही नाम अंकित है. विवाह पश्चात मेरे दस्तावेजों में मेरा नाम शैरोन राकेश (Sharon Rakesh) अंकित है, तथा मेरे पति का नाम राकेश कुमार गुप्ता होने से मैं, शैरोन राकेश गुप्ता के नाम से जानी जाती हूँ. मोली कुरियन (Moly Kurian) तथा शैरोन राकेश गुप्ता (Sharon Rakesh Gupta) एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो मेरे ही हैं जिसे मान्य किया जाये.

(G-392)

सूचनाकर्ता  
(शैरोन राकेश गुप्ता)  
मुरैना (म.प्र.)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, मुस्कान पत्नी श्री ब्रजकिशोर पवैया निवासी सत्यनारायण संतर मुरार ग्वालियर अपना नाम मुस्कान से परिवर्तित कर नीलू पत्नी श्री ब्रजकिशोर पवैया कर रही हूँ. अतः भविष्य में मुझे नीलू (NEELU) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम  
(मुस्कान)  
(Muskan)  
(G-393)

नया नाम  
(नीलू)  
(Neelu)

**CHANGE OF NAME**

I, Ramdass Damodar Potghan S/o Damodar Potghan. I have changed my name From Ramdass Damodar Potghan to Ramdas Potghan S/o Damodar Rao Potghan Resident of 97/2, Nanda Nagar, Indore Tehsil & District Indore (M.P.).

Old Name  
**(Ramdass Damodar Potghan)**  
S/o Damodar Potghan  
(G-394)

New Name  
**(Ramdas Potghan)**  
S/o Damodar Rao Potghan

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सरिता बंशीवाल पति सुनील बंशीवाल विवाह के उपरांत मेरा नाम सरिता तलवाने से सरिता बंशीवाल हो गया था जो कि मेरे पूर्व पति सुनील बंशीवाल के नाम पर है। मेरे तलाक के उपरांत मैं, अपना नाम सरिता तलवाने, जो कि विवाह के पूर्व था, के नाम से ही जाना, पहचाना जावे एवं शासकीय, अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में भी मुझे सरिता तलवाने ही पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
**(सरिता बंशीवाल)**  
(G-395)

नया नाम  
**(सरिता तलवाने)**  
जीबीएच-11, सीआई कॉलोनी, जहांगीराबाद, भोपाल.

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम शेख शोएब (SHEIKH SHOAIB) पिता शेख तस्लीम (SHEIKH TASLIM) निवासी-1223, नंदन नगर, सेक्टर एन, गली नं. 4, इन्दौर है मेरे सर्विस रिकार्ड में नाम गलती से शोयब शेख पिता शेख तस्लीम दर्ज कर दिया जो कि गलत है, जबकि मेरा वास्तविक नाम शेख शोएब (SHEIKH SHOAIB) पिता शेख तस्लीम (SHEIKH TASLIM) है, जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है, जिस कारण मुझको शेख शोएब (SHEIKH SHOAIB) पिता शेख तस्लीम (SHEIKH TASLIM) के नाम से जाना पहचाना जाता है।

पुराना नाम  
**(शोयब शेख)**  
**(SOYAB SHEIKH)**  
(G-396)

नया नाम  
**(शेख शोएब)**  
**(SHEIKH SHOAIB)**

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम अशोक कुमार चौहान आ. स्व. श्री रामरतन सिंह चौहान था, मैंने अपने पूर्व के नाम को परिवर्तित कर अशोक सिंह चौहान पुत्र स्व. श्री रामरतन सिंह चौहान कर लिया है. वर्तमान में मुझे

सभी व्यक्ति अशोक सिंह चौहान के नाम से जानते हैं. मेरा नाम अशोक सिंह चौहान शासकीय दस्तावेजों मार्कशीट, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, पेनकार्ड आदि में लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(अशोक कुमार चौहान)  
(G-397)

नया नाम  
(अशोक सिंह चौहान)  
पुत्र-स्व. श्री रामरतन सिंह चौहान

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मोहन एवं आत्मज श्री बसगीत मिश्रा जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड में दर्ज है. मुझे मोहन एवं आत्मज श्री बसगीत मिश्रा के नाम से जाना पहचाना जाता है. मैं, अपना एवं आत्मज का नाम परिवर्तन कर मोहन मिश्रा आत्मज स्वर्गीय श्री बसगीत मिश्रा कर रहा हूँ. मुझे भविष्य में मोहन मिश्रा आत्मज स्वर्गीय श्री बसगीत मिश्रा के नाम से जाना-पहचाना जावे एवं शासकीय व अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा पढ़ा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम  
(मोहन)  
आत्मज श्री बसगीत मिश्रा  
(G-398)

नया नाम  
(मोहन मिश्रा)  
आत्मज स्व. श्री बसगीत मिश्रा  
6वीं वाहिनी एस.ए.एफ. जी कंपनी, रांझी,  
जबलपुर (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम PPO व अन्य दस्तावेजों में (Smt. Ramayamma) (श्रीमती रामाम्यमा), Smt. Rama Devi (श्रीमती रामा देवी) एवं Smt. RamaKutty (श्रीमती रमाकुट्टी) अंकित. है. उपरोक्त तीनों नाम मेरे ही हैं.

मैं, उपरोक्त नाम परिवर्तित करती हूँ तथा मुझे अब Smt. Rema Nair (श्रीमती रेमा नायर) W/o Late Shri A S Shankaran Kutty (पत्नी स्व. श्री ए. एस. शंकरन कुट्टी) के नाम से जाना एवं पहचाना जावेगा.

प्रार्थी  
(रेमा नायर)  
W/o Late A S Shankaran Kutty  
पता-फ्लैट नं. 7, 158-सी, आशीर्वाद अपार्टमेंट,  
इन्द्रपुरी, भोपाल  
(G-399)

### नाम परिवर्तन

श्रीमति सीमा विश्वकर्मा पत्नी श्री मनीराम विश्वकर्मा निवासी-74, अयोध्या बायपास रोड, भवानी धाम, फेस-1, नरेला शंकरी, भोपाल (म.प्र.).

मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण-पत्र में उसका नाम यशवर्धन विश्वकर्मा दर्ज है जो कि सत्य व सही है यह कि मेरे उक्त पुत्र के आधारकार्ड में उसका नाम यशवर्धन दर्ज है जो कि अपूर्ण है मेरे पुत्र का सही नाम यशवर्धन विश्वकर्मा है, जो कि सत्य व सही माना जावे.

प्रार्थनीय  
(सीमा विश्वकर्मा)

(G-400)

### CHANGE OF NAME

I, Sanjeev Kumar Lunia son of Prakash Lunia, do hereby declare that I am shareholder of Ashiana Housing Ltd., my name in said shares has been wrongly mentioned/spelt as Sanjee Lunia. My correct name is Sanjeev Kumar Lunia which is written on my Aadhar and Pan card. I state that Sanjee Lunia and Sanjeev Kumar Lunia is the name of one and the same person and that is myself.

Old Name  
(Sanjee Lunia)

New Name  
(Sanjeev Kumar Lunia)  
74, Kanchan Bagh, Indore.

(G-401)

### NOTICE

[U/s 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932]

Notice is hereby given that the firms "DR WINE" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/0052/23 Year 2023-2024 Bhopal dated of Registration 04-05-2023 undergone the following Changes :-

1. That Shri Beerendra Kumar Sharma S/o Shri Ramnivash Sharma has expressed his desire to join the Partnership firm and work together as partner and remaining partners are agreed with them And carporete Address of the firm has Shifted at Plot No. 8-9 Mohini Golf Links, Phase-2, Gufa Mandir Road, Lalghati, Bhopal (M.P.) w.e.f. 03-06-2023.
2. That Shri Roopendra Mishra S/o Shri S.N. Mishra has desire to voluntry retired from the Partnership firm w.e.f. 04-08-2023.

DR WINE  
(Sanjay Mishra)  
Partner.

(G-402)



### उपनाम परिवर्तन

मैं, मोनिका सूर्यवंशी (Monika Suryawanshee) पुत्री शालिगराम सूर्यवंशी, निवासी-गांधी वार्ड क्रमांक 5, कन्या शाला के पास, सोहागपुर तहसील व थाना सोहागपुर, जिला-नर्मदापुरम (म.प्र.).

मेरे आधार कार्ड में मेरा उपनाम सूर्यवंशी (Suryawanshi) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मेरा सही उपनाम सूर्यवंशी (Suryawanshee) है. अतः मुझे मेरे सही नाम मोनिका सूर्यवंशी (Monika Suryawanshee) के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम  
(मोनिका सूर्यवंशी)  
(Monika Suryawanshi)  
(G-403)

नया नाम  
(मोनिका सूर्यवंशी)  
(Monika Suryawanshee).

### आम सूचना

फर्म कैलादेवी बायोटेक इण्डस्ट्रीज 09, कोतवाली के सामने, एम.एस. रोड, मुरैना, जिला मुरैना, पंजीयन क्र. 0244 / 2019 दिनांक 10-01-2019 में किया गया था, संशोधित डीड दिनांक 18-10-2021 के अनुसार भागीदार क्रमांक (1) श्री अनिल कुमार गर्ग एवं (2) श्री संजय कुमार गर्ग बाडी धौलपुर फर्म स्वेच्छा से हट रहे हैं एवं इसी दिनांक 18-10-2021 को नए भागीदार के रूप में भागीदार (3) श्री घनश्याम गोयल खेरागड जिला आगरा एवं (4) श्री मुकुल गोयल खेरागड जिला आगरा शामिल हो रहे हैं.

संशोधित डीड दिनांक 31-05-2023 के अनुसार नये भागीदार श्री सतीश कुमार गोयल, जयपुर एवं श्री कृष्णा लाल गंगानगर नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं अतः आज दिनांक 31-05-2023 से पार्टनर (1) श्री घनश्याम गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश गोयल, (2) श्री मुकुल गोयल पुत्र श्री घनश्याम गोयल, (3) सतीश कुमार गोयल पुत्र श्री शंकर लाल गोयल एवं (4) श्री कृष्णलाल पुत्र श्री कालू राम द्वारा फर्म का संचालन किया जायेगा. अतः कुल चार भागीदार रहेंगे.

KAILA DEVI BIO TECH INDUSTRIES

(घनश्याम गोयल)

पार्टनर

(G-404)

09, Infront of Kotwali, M.S. Raod, Morena.

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स सालासर बालाजी रीयल इन्फ्रा जो 19-ए, बलवंत नगर, ग्वालियर में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00001/12, दिनांक 05-04-2012 है जिसमें दिनांक 21-11-2023 को भागीदार 1. श्री वैभव शर्मा पुत्र स्व. श्री वी. डी. शर्मा निवासी 9 नेहरू कॉलोनी थाटीपुर ग्वालियर 2. श्री वीर सिंह पुत्र श्री कालीचरन पुत्र ग्राम गंगा मालनपुर ए. बी रोड ग्वालियर 3. श्रीमती सुनीता शर्मा पुत्री जे. डी. त्यागी निवासी 16 नेहरू कॉलोनी ग्वालियर (म.प्र.) 4. मेसर्स शिवदेव डवलपर्स द्वारा श्रीमती सीमा भदौरिया निवासी एम-21, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर अपनी स्वेच्छा से फर्म से स्वतः पृथक हो गए हैं. एवं इसी दिनांक 21-11-2023 को 1. श्री रमेश चंद्र चौरसिया पुत्र श्री शंकरलाल

चौरसिया निवासी-जासूस महल, चावड़ी बाजार, ग्वालियर 2. श्री मुकेश गुप्ता पुत्र श्री नरेश गुप्ता निवासी-99, जम्भूर खाना, हेम सिंह की परेड, मामा का बाजार, ग्वालियर 3. श्री सरनाम सिंह यादव पुत्र श्री कालीचरन यादव निवासी-मालनपुर, ग्वालियर 4. श्री हरीश शर्मा पुत्र श्री कल्याण चंद्र शर्मा निवासी-16, नेहरू कॉलोनी ग्वालियर (म.प्र.) नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं.

मेसर्स सालासर बालाजी रीयल इन्फ्रा  
(सुनील खंडुजा)  
भागीदार

(G-405)

19-ए, बलवंत नगर, ग्वालियर (म.प्र.)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, इमल बाई सावले पति हिलाल सावले, निवासी-135, बीडीए पाट जैन मंदिर के पास, पंचशील नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश मेरे वोटर आई-डी में मेरा नाम इमल बाई सावले हैं जो कि सही है किन्तु त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम ऐलान बाई अंकित हो गया है। इसलिए मेरे आधार कार्ड में मेरे नाम परिवर्तित कर इमल बाई सावले दर्ज किया जावे जो कि मेरे वोटर आई-डी, एवं अन्य दस्तावेजों के अनुसार सही है।

आवेदक  
(इमल बाई सावले)

(G-406)

### नाम परिवर्तन

मैं, प्रमोद कुमार पिता शंकरलाल रावत निवासी-रेलवे अस्पताल के पास, रेलवे कॉलोनी, एन.के.जे. शिवाजी वार्ड, तह. व जिला कटनी (म.प्र.) मेरा नाम त्रुटिवश सर्विस बुक में प्रमोद कुमार शंकरलाल रावत नाम दर्ज हो गया है मैं, अपना नाम प्रमोद कुमार पिता शंकर लाल रावत दर्ज कराना चाहता हूँ, जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों में एवं आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में भी दर्ज है. मेरे सर्विस दस्तावेजों में मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों के अनुसार दर्ज किया जाये.

पुराना नाम  
(प्रमोद कुमार शंकरलाल रावत)

पिता शंकर लाल रावत

(G-407)

नया नाम  
(प्रमोद कुमार)  
पिता शंकरलाल रावत

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेसर्स पर्ल रिसॉर्ट्स एंड बैंकुएट (M/S PEARL RESORTS & BANQUET) कार्यालय-हाउस नंबर 17, के के मेन्शन चन्दोर का बाड़ा, जयेन्द्र गंज, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 474001 जो दिनांक 21 अप्रैल 2022 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र 02/42/01/0033/22 वर्ष 2022-23, दिनांक 9 जून 2022 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 16 जनवरी 2024 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार

है की श्री अंशुमन अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, गौरव अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल, एवं पार्थ अग्रवाल पुत्र श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल फर्म में सम्मिलित हुए हैं।

मेसर्स पर्ल रिसोर्ट्स एंड बैंकुएट  
(मेनका अग्रवाल)  
पार्टनर

कार्यालय-हाउस नं. 17, के के मेन्शन, चन्दौर का बाड़ा,  
जयेन्द्र गंज, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.)

(G-408)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पुराना नाम महिमा रैकवार (Mahima Raikwar) पिता कैलाश रैकवार समस्त दस्तावेजों में दर्ज है मेरा विवाह श्रीकांत नामदेव के साथ हो गया है विवाहोपरांत अब मैं, महिमा नामदेव (Mahima Namdeo) पति श्रीकांत नामदेव हो गई हूँ प्रकाशन के पश्चात् मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे पुराने नाम महिमा रैकवार (Mahima Raikwar) पिता कैलाश रैकवार के स्थान पर मेरा नया नाम महिमा नामदेव (Mahima Namdeo) पति श्रीकांत नामदेव लिखा, पढ़ा, जाना एवं समक्षा जावे।

पुराना नाम  
(महिमा रैकवार)  
(Mahima Raikwar)

नया नाम  
(महिमा नामदेव)  
(Mahima Namdeo).

(G-409)

### नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शिम्बो मेहरा (SHIMBO MEHRA) पत्नी श्री गुरदीप सिंह (GURDIP SINGH) निवासी-मकान नं. 8, अवंतिका एवेन्यू, फेज-1, खजूरी कला भोपाल (म.प्र.) मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम - शिम्बो मेहरा (SHIMBO MEHRA) दर्ज है. मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम मनजीत कौर (MANJEET KAUR) पत्नी श्री गुरदीप सिंह (GURDIP SINGH) दर्ज है. जिस भी दस्तावेजों में मेरा नाम मनजीत कौर (MANJEET KAUR) दर्ज है, उसके स्थान पर शिम्बो मेहरा (SHIMBO MEHRA) पढ़ा एवं लिखा जावे।

पुराना नाम  
(मनजीत कौर)  
(MANJEET KAUR)

नया नाम  
(शिम्बो मेहरा)  
(SHIMBO MEHRA)

(G-410)

### नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का नाम कुछ शैक्षणिक दस्तावेजों में विक्रम वर्मा (Vikram Verma) अंकित हो गया है जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम बलराम सौराष्ट्रीय (Balram Saurashtriya) है जो की मेरे शेष अन्य समस्त दस्तावेजों में अंकित है इसलिये मेरे समस्त दस्तावेजों में पिता का नाम बलराम सौराष्ट्रीय (Balram Saurashtriya) अंकित किया जावे।

आवेदक  
(पायल धारिया)

आत्मजा-बलराम सौराष्ट्रीय  
निवासी-37-A, भवानीधाम, फेस-1, नरेला शंकरी,  
अयोध्या बायपास रोड, हुजुर, भोपाल (म.प्र.).

(G-411)

**नाम परिवर्तन**

मैं, अनंत प्रसाद पिता स्व. बालदेव निवासी—बिलहरी मंडला रोड, जबलपुर मेरा किसी गलती के कारण नाम अनंत प्रसाद हो गया था जिसे मैं, सुधारकर अनन्त प्रसाद कर रहा हूँ तथा सभी दस्तावेज में सुधार करा लिया है. अतः आज से अनंत प्रसाद वल्द स्व. बालदेव प्रसाद के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम  
(अनंत प्रसाद)  
(Anat Prasad)  
(G-412)

नया नाम  
(अनंत प्रसाद)  
(Anant Prasad)

**नाम परिवर्तन**

मैं, प्रहलाद पाटीदार पिता स्व. श्री सत्यनारायण पाटीदार निवासी—201, साई विहार कॉलोनी, राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

मेरे पुत्र उज्ज्वल पाटीदार पिता श्री प्रहलाद पाटीदार के शैक्षणिक रिकार्ड में मेरी दूसरी पत्नी श्रीमती सुनीता पाटीदार का नाम दर्ज है. मेरी पहली पत्नी स्व. श्रीमती इन्दिरा पाटीदार का निधन हो गया था और मैंने दूसरा विवाह श्रीमती सुनीता पाटीदार से किया गया था जिससे कि मेरा विवाह विच्छेद न्यायालय इंदौर से हो गया.

अतः मेरे पुत्र उज्ज्वल पाटीदार के शैक्षणिक रिकार्ड में उसकी माता का नाम सुनीता पाटीदार के स्थान पर स्व. श्री श्रीमती इन्दिरा पाटीदार अंकित कर उसे इसी नाम से जाना—पहचाना दर्ज किया जावे.

(G-413)

प्रार्थी  
(प्रहलाद पाटीदार)

**नाम परिवर्तन**

मैं, महावीर वर्मा पिता वंशपति प्रसाद वर्मा निवासी—वार्ड नं. 44, महाजन टोला, गड्डी रोड नई बस्ती रीवा, तह. हुजुर, जिला रीवा (म.प्र.). मेरे कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में मेरा नाम महावीर वर्मा दर्ज है जो कि सही व सत्य है. जबकि मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड में मेरा नाम महावीर प्रसाद वर्मा अंकित है जो गलत है. अतः मेरे समस्त रिकार्ड व कर्मचारी भविष्य निधि के खाते में मेरा सही नाम महावीर वर्मा पढ़ा, लिखा व माना जाए.

(G-414)

भवदीय  
(महावीर वर्मा)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मुरारी लाल शर्मा स्टोन क्रेशर पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0146/17 दिनांक 25-8-2017 ग्वालियर सम्भाग से पंजीकृत फर्म है. यह कि, संशोधित भागीदारी अभिलेख दिनांक 15 मई 2023 के अनुसार इस भागीदारी फर्म में (1) श्रीमती शालिनी शर्मा पत्नी श्री मनीष शर्मा निवासी—राजेश्वरी रोड, शिवपुरी (म. प्र.) (2) श्री अजय पाठक पुत्र श्री भागीरथ पाठक निवासी—8, श्री बिहार कॉलोनी, घोसीपुरा स्टेशन, लशकर, ग्वालियर (म.प्र.) को आपसी सहमति से इस भागीदारी फर्म में दिनांक 01-04-2023 को सम्मिलित किया गया है तथा भागीदार (1) श्री आनंद मोहन पाराशर पुत्र श्री रमेश चंद पाराशर निवासी—201, प्रिंस काम्पलेक्स, टाटा शोरूम के पास, लालघाटी, भोपाल (म.प्र.) (2) श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री नारायण शर्मा निवासी—गायत्री मार्केट, अम्बाह रोड तिराहा, मुरैना (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से इस भागीदारी फर्म से दिनांक 01-04-2023 को पृथक् (बाहर) हो रहे हैं और इस फर्म का पुराना पता—शहर कार्यालय झंवर स्टेट गांधी रोड, गिर्द ग्वालियर (म.प्र.) से बदलकर नवीन पता—बी-408, ओरेंज बुड्स रेजीडेन्सी, सिरोल रोड, ग्वालियर (म.प्र.) आपसी सहमति से दिनांक 01-04-2023 को किया गया है.

MURARI LAL SHARMA STONE CRESHER  
(मुरारीलाल शर्मा)  
भागीदार.

(G-415)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम बेनजीर सक्सेना एवं बेनू सक्सेना है तथा मेरे राजस्व अभिलेखों में मेरा नाम बेनू सक्सेना पुत्री श्री जेड.ए. मलिक अंकित है. इस प्रकार से बेनजीर सक्सेना एवं बेनू सक्सेना दोनों नाम एक ही व्यक्ति के अर्थात् मेरे स्वयं के हैं और अब मैं, वर्तमान में बेनजीर सक्सेना नाम से जानी जाती हूँ जो मेरे अन्य आवश्यक दस्तावेज आधारकार्ड, पेनकार्ड में अंकित है.

भवदीय,

(बेनजीर सक्सेना)

13-14, Windsor Phase 2,

Chunabhatti, Kolar Road, Bhopal.

(G-416)

## विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

## न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. बी-113-2023-24-4246-वी-121-2023-24

छतरपुर, दिनांक 24 जनवरी 2024

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 (1951 क 30) मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 नियम 5(1) के अंतर्गत]

लोक न्यासों के पंजीयक (रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट अनुविभाग छतरपुर), जिला छतरपुर (म.प्र.) के समक्ष यह कि

क्र. (1)	नाम (2)	पता (3)	पद (4)
1.	श्री विनोद सिंह तनय राम सिंह धोष	घुसयाना मुहल्ला, छतरपुर	अध्यक्ष
2.	श्री निक्की ताम्रकार तनय भइयालाल ताम्रकार	तमराई मुहल्ला, छतरपुर	उपाध्यक्ष
3.	श्री आनंद ताम्रकार तनय स्व. भरतलाल ताम्रकार	गवाल मगरा तालाब वार्ड नम्बर 10 छतरपुर.	उपाध्यक्ष
4.	श्री पंकज पहारिया तनय स्व. हरिशंकर पहारिया	लोकनाथपुरम कॉलोनी, छतरपुर	संरक्षक
5.	डॉ. प्रेम नारायण ताम्रकार तनय स्व. श्री गुलजारी लाल	तमराई मुहल्ला, छतरपुर	संरक्षक
6.	श्री अशोक ताम्रकर तनय स्व. द्वारका प्रसाद ताम्रकर	तमराई मुहल्ला, छतरपुर	संरक्षक
7.	श्री ओमप्रकाश ताम्रकर तनय बल्ले प्रसाद ताम्रकार	तमराई मुहल्ला, छतरपुर	प्रबंधक
8.	श्री हरीश ताम्रकर तनय स्व. बाबूलाल ताम्रकर	गवालमंगरा तालाब, छतरपुर	उप प्रबंधक
9.	डॉ. हरि सिंह घोष तनय स्व. राधाचरण घोष	घुसयाना मुहल्ला, छतरपुर	कोषाध्यक्ष

(1)	(2)	(3)	(4)
10.	श्री बद्री प्रसाद ताम्रकर तनय स्व. परमलाल ताम्रकर	कछियाना मार्ग तमराई मुहल्ला, छतरपुर	उप कोषालय
11.	श्री अंकुर सिंह घोष तनय राजेन्द्र सिंह घोष	घुसयाना मुहल्ला, छतरपुर	सदस्य
12.	श्री राजीव पौराणिक तनय स्व. स्वामी प्रसाद	वार्ड नंबर 09 स्वामी जू मार्ग, छतरपुर	सदस्य
13.	श्री संतोष कुशवाहा तनय अक्की लाल	सरानी मार्ग वार्ड नं. 09, छतरपुर	सदस्य
14.	श्री लखनलाल यादव तनय स्व. मथुरा प्रसाद	कछियाना मार्ग, वार्ड नं. 09 छतरपुर	सदस्य
15.	श्री अर्जुन सिंह यादव तनय स्व. नत्थू सिंह	अरजरिया मार्ग, छतरपुर	सदस्य
16.	श्री गनेश प्रसाद सोनी तनय स्व. रामचरन सोनी	सिनेमा मार्ग, वार्ड नं. 10, छतरपुर	सदस्य
17.	श्री भरत निगम तनय स्व. बिहारी लाल निगम	बजरंग नगर, छतरपुर	कानूनी सलाहकार
18.	श्री लक्ष्मी प्रसाद कुशवाहा तनय दीनदयाल कुशवाहा	नरसिंहगढ़ पुरवा, छतरपुर	कानूनी सलाहकार
19.	श्री कमला कांता गंधर्व तनय स्व. शंकरलाल	बजरिया के हनुमान जी के पास, छतरपुर.	सदस्य
20.	श्री आनंद ताम्रकार तनय शंकर लाल ताम्रकार	रमतुलया मार्ग वार्ड नं. 10, छतरपुर	सदस्य

1. चूंकि आवेदकों/न्यासियों की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा श्री श्री 1008 बालक दास धाम कुण्ड, पहाडिया पब्लिक ट्रस्ट, छतरपुर, तहसील व जिला, छतरपुर (म.प्र.) पब्लिक ट्रस्ट के लोक न्यास पंजीयन हेतु ट्रस्ट एक्ट 1951 के अधीन आवेदन पत्र दिया गया है। एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कथित आवेदन पत्र पर दिनांक 11-8-23 को मेरे न्यायालय में विचार पर लिया जावेगा। इस संबंध में जिस किसी को आपत्ति हो वह आपत्ति इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से प्रकरण में नियत दिनांक के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस में स्वयं अथवा अधिकृत अभिभाषक के माध्यम से अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

#### अनुसूची

2. लोक न्यास का नाम और पता :- श्री श्री 1008 बालक दास धाम कुण्ड पहाडिया, पब्लिक ट्रस्ट छतरपुर, तहसील व जिला छतरपुर, (म.प्र.).

#### 3. सम्पत्ति का विवरण

चल संपत्ति :-

क्र (1)	विवरण (2)	नग (3)
1.	पलंग पेटी लोहे की	02 नग
2.	तखत लकड़ी के	02 नग
3.	गैस चूल्हा	01 नग
4.	गैस सिलेण्डर	02 नग
5.	अलमारी लोहे की	01 नग
6.	कड़ाही लोहे की बड़ी	01 नग

(1)	(2)	(3)
7.	कड़ाही लोहे की छोटी	02 नग
8.	भगोनी स्टील की	04 नग
9.	चाय हत्ता	01 नग
10.	गिलास स्टील के	24 नग
11.	थाली स्टील की	12 नग
12.	कटोरी स्टील की	12 नग
13.	कटोरी स्टील के बड़े	02 नग
14.	स्टील के डिब्बा	04 नग
15.	झारे छोटे-बड़े	04 नग
16.	बर्तन रखने का स्टील स्टैण्ड	01 नग
17.	मूर्ति-गणेश भगवान की	01 नग
18.	रिद्धी-सिद्धी मूर्ति	02 नग
19.	माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति	01 नग
20.	हाथी बड़े	02 नग
21.	शंकर जी की मूर्ति जरारू सहित	01 नग
22.	पार्वती जी की मूर्ति	01 नग
23.	नंदी जी की मूर्ति	01 नग
24.	कार्तिकेय जी की मूर्ति	01 नग
25.	पार्वती जी की मूर्ति छोटी	01 नग
26.	घंटा पीतल का	01 नग
27.	झालर पीतल की	02 नग
28.	लड़्डू गोपाल छोटे	02 नग
29.	सरोता	02 नग
30.	बका लोहो का	01 नग
31.	कुआं के मोटर	02 नग
32.	टिल्लू पम्प पानी का	01 नग
33.	सटक पूरी	01 नग
34.	कुपरा पीतल के	02 नग
35.	फ्रिज	01 नग
36.	इनर्वटर बेटरी	01 नग
37.	सोलर प्लेट बेटरी सहित	01 नग
38.	कूलर लोहे के	02 नग
39.	सीलिंग फैन	04 नग
40.	टेबिल फैन	01 नग
41.	फर्श	02 नग
42.	पानी की टंकी	03 नग
43.	हॉल बड़े	02 नग
44.	छोटां कमरा (अटेच लेट-बाथरूम)	01 नग
45.	टीन शेड	02 नग
46.	वाटर फिल्टर	01 नग
47.	पानी की सीमेंट की टंकी	01 नग
48.	आश्रम के नाम से भूमि -	

अचल संपत्ति :-

श्री श्री 1008 बालक दास धाम कुण्ड पहाड़िया छतरपुर पब्लिक ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति :- खसरा नं. 2094 रकबा 0513 हे., खसरा नं. 2096 रकबा 0.449 हे., खसरा नं. 2097 रकबा 0.178 हे. खसरा नं. 2098 रकबा 0.158 हे., खसरा नं. 2099 रकबा 0.350 हे., खसरा नं. 2100 रकबा 0.279 हे., खसरा नं. 2101 रकबा 0.214 हे., खसरा नं. 2102 रकबा 0.849 हे. है.

(G-417)

बलवीर रमन, रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास उपखण्ड गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

क्र. 1958-प्रवा-01-लो.न्या.-2024-प्र.क्र. बी-113-23-24

गोटेगांव, दिनांक 21 जनवरी 2024

(नियम पांच-1देखिए)

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पंजीयक लोक न्यास गोटेगांव जिला नरसिंहपुर के समक्ष आवेदक स्व. छोटेलाल साहू, श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट, गोटेगांव द्वारा आवेदक सरदारसिंह पटेल पिता श्री मुलाम सिंह पटेल वगैरा निवासी बोंसवार्ड, किसानी मोहल्ला, गोटेगांव के द्वारा अन्तर्गत धारा 4 (म.प्र.) लोक न्यास अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये दिनांक 19.09.2023 को आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है, जो मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

इस संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर 2 प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत कर सकता है और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

( लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण )

1. श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट पथरया कुंआ किसानी मोहल्ला गोटेगांव जिला नरसिंहपुर (म.प्र.)
2. वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष- श्री बद्रीप्रसाद साहू (भोले) पिता छिदामीलाल साहू निवासी-पुराना बस स्टेंड, देव मुरलीधर वार्ड, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर.
3. चल संपत्ति-
4. अचल संपत्ति-1 मौजा छोटा छिन्दवाड़ा, तहसील गोटेगांव में हरदोल वार्ड में 740 वर्गफिट पर निर्मित एक मंजिला मकान.  
2 मौजा कमती प.ह. गोटेगांव में खसरा नंबर 3/1 रकबा 0.073 हे. भूमि  
3 मौजा गोटेगांव खेडा में खसरा नंबर 28/3 रकबा 1.092 हे. भूमि

पूजा तिवारी, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(G-418)



## कार्यालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, शहर वृत्त, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र. 1958-रीडर-2024

भोपाल, दिनांक 2 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम,  
1952 के नियम 5(1) के अंतर्गत समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट जिला भोपाल]

आवेदक श्री सचेन्द्र जैन आ. श्री रूपचंद्र जैन निवासी 752, ए-सेक्टर, अशोका गार्डन, भोपाल द्वारा "श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट अशोका गार्डन" को ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शायी गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा, सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 4-3-2024 को विचार में लिया जावेगा। कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें, अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभावक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उपयुक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा :-

## अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	—	"श्री पार्श्वनाथ दिगम्बर जैन मंदिर कमेटी ट्रस्ट, अशोका गार्डन"
कार्यालय का पता	—	प्लॉट नं. ए-866, अशोका गार्डन, भोपाल
अचल सम्पत्ति	—	मकान और धर्मशाला
चल सत्पत्ति	—	84,895/- (चौरासी हजार, आठ सौ पिनचानवे रुपये)

(G-419)

अमन मिश्रा, रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 फरवरी, 2024—फाल्गुन 4, शक 1945

भाग ३ ( २ )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )